

शाहजहाँपुर पुलिस की संवेदनशीलता व तत्परता के चलते टला बड़ा हादसा,

अचानक आग लगने की दुर्घटना से आमजन को बचाया तथा पीड़ितों को राशन उपलब्ध कराकर की मदद।

श्री एस आनन्द पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर द्वारा कम्युनिटी पुलिसिंग के अंतर्गत जनता से बेहतर समन्वय व अत्यंत संवेदनशील होकर जनता की हरसम्भव मदद करने हेतु समस्त पुलिस अधि0/कर्म0गण को निर्देश दिये गये हैं।

इसी क्रम में दिनांक 09.06.22 को थाना मिर्जापुर क्षेत्र के ग्राम अतरी निजामपुर मजरा ग्राम पंचायत वीघापुर सिठौली में अचानक आग लग गयी। सूचना पर तत्काल थाना मिर्जापुर पुलिस मौके पर पहुंचकर राहत बचाव कार्य शुरू किया। स्थानीय पुलिस व फायर ब्रिगेड व यूपी-112 द्वारा ग्रामवासियों के सहयोग से कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया गया। इस दुर्घटना में स्थानीय नागरिक हरकिशोर पुत्र लाल सिंह .2बलवीर पुत्र लाल सिंह .3महेश पुत्र लाल सिंह .4नूरजहाँ पुत्र रफीक अली .5ईशब अली पुत्र अफसर अली .6शमशुद्धी पुत्र साबीर अली .7आबिद अली पुत्र ईशबअली .8सादिक अली पुत्र साबिर अली .9मुबिरक अली पुत्र साबिर अली .10साबिर अली पुत्र मुन्शी .11जामिद अली पुत्र साबिर अली .12जिलेदार पुत्र सूबेदार .13अब्दुल हसन पुत्र अफसर अली .14रजमुल पुत्र अब्दुल हसन .15होशियार पुत्र सूबेदार के घरेलू सामान अनाज भूसा , झोपडी व घरों में फर्निचर इत्यादि व अन्य सामान के जल जाने से सभी का भारी माल नुकसान हुआ परन्तु शाहजहाँपुर पुलिस की अत्यंत तत्परता के चलते किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई है और पालतु जानवरों को तत्काल मौके से हटाकर बचाया गया।

इस दुर्घटना में उक्त ग्रामवासियों के घर व उनका घरेलू सामान राशन इत्यादि पूरी तरह जल गया था जिससे कारण उनके सामने खाने की समस्या उत्पन्न हो गयी। थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा इस समस्या को भापते हुए तत्काल राशन की व्यवस्था करते हुए पीड़ित परिवारों को तात्कालिक भोजन हेतु द्वारा आटा , चावल , दाल, मसाले , तेल , सब्जी इत्यादि खाद्य सामग्री तुरन्त उपलब्ध करायी गयी ताकि उनके घरों में कोई भूखा न रहे तथा स्थानीय कोटेदार व ग्राम प्रधान से भी राशन इत्यादि दिलाये जाने हेतु अपील की गयी साथ ही हरसम्भव मदद करने का आश्वासन दिया।

मौके पर स्थानीय पुलिस बल द्वारा वरिष्ठ अधिकारीगणों को सूचित किया गया जिसके अनुक्रम में उपजिलाधिकारी कलान, क्षेत्राधिकारी जलालाबाद व राजस्व टीम द्वारा पीड़ितों को मिलने वाली राजकीय सहायता के सम्बन्ध में निरीक्षण किया गया। तथा दुर्घटना में मामूली रूप से घायल फूलजहाँ पत्नी अब्दुल हसन को तत्काल पीआरवी की मदद से तुरन्त उपचार हेतु सीएचसी 1367 जरीयनपुर भिजवा कर प्राथमिक उपचार कराया गया।

***सहयोग करने वाली टीम:- ***

1-थानाध्यक्ष अरविन्द सिंह चौहान	2-उ0नि0 राजपाल सिंह
3-उ0नि0 अजब सिंह	4-उ0नि0 विपिन कुमार शर्मा
5-का0 2506 जसवीर	6-का0 2655 राहुल यादव
7-का0 1186 सुमित प्रताप सिंह	8-का0 1745 अनिकेत कुमार
9-का0 2246 सोनू	10-का0 1754 अरविन्द तोमर
11-म0का0 2934 दुर्गेश मिश्रा	12-HC चालक मानवेन्द्र सिंह
13-का0 पीआरवी स्टाफ 3398	14-का0 दारा सिंह धनकड (फायर ब्रिगेड)
14-का0 भूपेन्द्र राणा (फायर ब्रिगेड)	16-का0 श्यामवीर सिंह (फायर ब्रिगेड)